


बच्चेयां ताँई बाइबल
पेस करदी ऐ

सुअर्ग,
परमात्मे द
सुन्दर घर



Edward Hughes: ਦੇ ਜਿਥੇ ਲਿਖਿਯੋ ਏ।

Lazarus; Alastair Paterson: ਦੇ ਜਿਥੇ ਬਣਾਈ ਗੇਈ।

Sarah S.: ਦੇ ਜਿਥੇ ਅਨੁਕੁਲਿਤ।

Subramani N.: ਦੇ ਜਿਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਤਾ।

Bible for Children


www.M1914.org: ਦੇ ਜਿਥੇ ਬਣਾਈ ਏ।

©2022 *Bible for Children, Inc.*

ਲਾਈਸੈਂਸ: ਜਾਹਲੂ ਤਿਕਰ ਤੁਹਾਂ ਇਸਾ ਜੋ ਨੀ ਬੇਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਹਲੂ ਤਿਕਰ ਤੁਹਾਂ
ਜੋ ਇਸਾ ਕਾਹਣਿਆ ਜੋ ਕੋਪੀ ਯਾ ਪਰਿੰਟ ਕਰਣੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਏ।



जाह्लू यीशु धरती च रैह्दे थे तां तिन्हां अपणे चेलेयां जो
सुअर्ग दे बारे च दस्सेया। तिन्हीं इसियो मेरे पिता दा घर
ग्लाया, कने एह भी ग्लाया कि तित्थु मते मेहल हन। मेहल
इक्क बड्डा कने सुन्दर घर ए।
सुअर्ग धरती दे घरे ते
बड्डा कने सुन्दर ए।



यीशुर्यै ग्लाया, “मैं तुहां ताँई जगाह त्यार करणा चलेया ए।
कने जे मैं जाई नैं तुहां ताँई जगाह त्यार करैं, तां भिरी
आई नैं तुहां जो अपणे ऐत्थु सद्दी लैंगा। मरेयां ते दोबारा
जिन्दा होणे ते बाद यीशु सुअर्गे जो गोआ। जाहलू तिसदे
चेले दिक्खा दे थे तां यीशु चुकी लेआ, कने इककी बदलैं
तिसियो तिन्हां दिया
नजरा ते ओङ्गल
करी दिता।




ਤਾਹਲੂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਕਨੇ ਤਿਨਹਾਂ ਜੋ ਪਾਣੇ
ਤਾਂਈ ਯੀਸ਼ੁ ਦੇ ਵਾਦੇ ਜੋ ਯਾਦ ਕਿਤਾ ਏ। ਯੀਸ਼ੁ ਯੈਂ ਗਲਾਯਾ ਕਿ
ਸੈਹ ਚਾਣਚਕ ਵਾਪਸ ਆਂਗਾ, ਜਾਹਲੂ ਕਮ ਤੁਸੀਦ
ਹੁੰਗੀ। ਅਪਰ ਤਿਨਹਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਕਿਆ ਜੇਹੜੇ ਤਿਸਦੇ ਆਣੇ ਤੇ ਪੈਹਲਿੰਦੇ
ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਬਾਇਬਲ ਗਲਾਂਦੀ
ਏ ਕਿ ਸੈਹ ਸੌਗੀ ਰੈਹਣਾ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਸਰੀਰੇ ਤੇ ਹਾਜਿਰ
ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੌਗੀ
ਹਾਜਿਰ ਹੋਣਾ ਏ।



ਧਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮੇ ਦੇ
ਸਾਮਣੋਂ ਹਾਜਿਰ ਹੋਣਾ



ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਵਾਕਿਆਂ, ਬਾਇਬਲਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਤਾਬ, ਅਹਾਂ ਜੋ ਦਸ਼ਦੀ ਏ ਕਿ ਸੁਅੰਗ ਕਿਤਣਾ ਅਨੋਖਾ ਏ। ਸਬਤੇ ਅਨੋਖੀ ਗਲਲ ਏਹ ਏ ਕਿ, ਸੁਅੰਗ ਪਰਮਾਤਮੇ ਦਾ ਘਰ ਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗਾਹ ਏ, ਅਪਰ ਤਿਸਦਾ ਸਿੰਹਾਸਣ ਸੁਅੰਗ ਚ ਏ।



सुअर्गदूत कने दूये सुअर्गिय प्राणी
सुअर्ग च परमात्मे दी अराधना करदे
हन। इआं ई परमात्मे दे सारे लोक
करन जेहङ्ग मरी गे हन कने सुअर्ग
च चली गे हन। सैह परमात्मे दी
स्तुति दे खास गीत गांदे हन।




ਏਤਥੁ ਤਿਨਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੇ ਗਏ ਹਾਂ ਗੀਤ ਇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਕੁਚਛ
ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗੇ ਹਨ: ਤੁਹਾਂ ਇਸ ਲਾਯਕ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਹਰ
ਜਾਤਿ ਕਨੇ ਦੇਸੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਖੂਨੇ ਦੇ ਜਿਹੇ
ਅਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮੇ ਤਾਂਝੀ ਖਰੀਦੀ ਲੇਅਾ
ਏ ਕਨੇ ਅਹਾਂ ਜੋ ਅਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮੇ
ਤਾਂਝੀ ਰਾਜਾ ਕਨੇ ਯਾਜਕ ਬਣਾਯਾ
ਏ। (ਗ੍ਰਾ.5:9)




ਬਾਇਬਲਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਾਠਾਂ ਚ ਸੁਅਰਗ ਦਾ ਬਖਾਨ “ਨੌਆਂ
ਧਰੂਲੇਮ ਸੈਹਰ” ਦੇ ਰੂਪੇ ਚ ਕਿਤਾ ਏ। ਏਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਏ, ਬਾਹਰ
ਇਕਕ ਊਚੀ ਦੀਵਾਰ ਏ। ਦੀਵਾਰ ਧਨਬ ਪਤਥਰੇ ਦੀ ਥੀ, ਜੇਹੜੀ ਸੀਥੇ
ਸਾਇਆਂ ਸਾਫ ਥੀ। ਸੁਨਦਰ ਗੈਹਣੇਯਾਂ ਕਨੇ ਕਿਮਤੀ ਪਤਥਰਾਂ ਨੈਂ
ਦੀਵਾਰਾ ਦੀ


ਨੀਆ ਜੋ
ਢਕੀ ਦਿਤਿਆ।
ਸੈਹਰੇ ਦਾ ਹਰ
ਇਕਕ ਦਰਵਾਜਾ
ਇਕਕ ਕੀਮਤੀ
ਮੋਤਿਧੇ ਨੈਂ
ਬਣੇਧਾ ਏ!




ਸੈਹ ਮੌਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਦਰਵਾਜੇ ਕਦੀ ਬਨਦ ਨੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਲਾ ਅਨਦਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਕਨੇ ਚੌਂਨੀ ਪਾਸ੍ਸੋਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ...ਵਾਹ! ਸੁਅਰ੍ਗ ਅਨਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭੀ ਖੁਬਸੂਰਤ ਏ। ਏਹ ਸੈਹਰ ਸਾਫ ਸੀਸ਼ੇ ਸਾਇਆਂ ਸਾਫ ਸੋਨੇ ਨੈਂ ਬਣੇਯਾ ਏ। ਗਲੀ ਭੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਿਯੋ ਏ।




ਪਰਮਾਤਮੇ ਦੇ ਸਿੱਹਾਸਣੇ ਤੇ ਜਿਨਦਗਿਆ ਦੇ ਪਾਣਿਯੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਨਦਰ ਨਦੀ ਬੈਹਨੀ ਹੈ। ਨਦਿਆ ਦੇ ਦੂਨੀਂ ਪਾਸ੍ਸੈਂ ਜਿਨਦਗਿਆ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਸਥਾਨੇ ਪੈਹਲੈਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਚ ਥਾ। ਏਹ ਰੁਖ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਮੀਹਨੇ ਇੱਕ ਲਗਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕਨੇ ਜਿਨਦਗਿਆ ਦੇ ਰੁਖੇ ਦੇ ਪਤਰ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤਾਂਈ ਹਨ।



ਸੁਅੰਗ ਜੋ ਪਰਗਡੇ ਤਾਂਈ ਸੂਰਜੇ ਦੀ ਧੀ ਚਦਰਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੀਂ ਏ।
ਪਰਮਾਤਮੇ ਦੀ ਅਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਤਿਸਿਧੀ ਅਨੋਖੇ ਪਰਗਡੇ ਨੈਂ ਭਰੀ
ਦਿੰਦੀ ਏ। ਤਿਤਥੁ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੀਂ ਹੁੰਦੀ ਏ।



ਸੁਅੰਗ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਭੀ ਲਗਗ ਹਨ। ਸੈਫ਼ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਹਨ। ਮੇਡਿਯੇ ਕਨੇ ਮੇਡਾਂ ਦੇ ਬਚਚੇ ਸੌਗੀ-ਸੌਗੀ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ੇਰ ਭੀ ਦਾਂਦਾ ਸਾਇਆਂ ਭੂਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਲਾਂਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੈਫ਼ ਨਕਸਾਨ ਪੜਜਾਂਗੇ ਕਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਸ ਕਰਗੇ।




जाहलू अहां चौंनी पास्सैं दिखदे
हन, तां अहां दिखदे हन कि
सुअर्ग ते कुच्छ चीजजां गायब
हन। कोई नराज होणे दा सब्द
कदी नीं सुणोया जांदा ऐ।
कोई नीं लङ्डा ऐ कने ना
कोई सुआर्थी ऐ। दरवाजे
पर ताले भी नीं हन,
कजोकि सुअर्ग च कोई
चोर नीं ऐ। कोई झूठा,
हत्यारा, जादूगर कने
कोई बुरे लोक नीं हन।
सुअर्ग च कोई भी
पाप नीं ऐ।



परमात्मे सौगंधि सुअर्गे च हुण
होर दुख नीं हन। कदी-कदौ,
इसा जिन्दगिया च मते दुखां
दिया बजाह ते लोक रोंदे हन।
सुअर्गे च, परमात्मा सारे
आसुआं जो पुज्जीं दिंगा।




सुअर्ग च कोई मौत नीं ऐ। परमात्मे दे लोक हमेसा यहोवा
परमात्मे सौगी रँहगे। हुण ना कोई दुख, ना रोणा, ना दर्द
ऐ। कोई बमारी नीं, कोई बिदाई नीं कने कोई अन्तिम
संस्कार नीं ऐ। सुअर्ग
च हर कोई परमात्मे
सौगी हमेसा
ताँई खुस ऐ।



ਸਬਤੇ ਖਰੀ ਗਲਲ ਏਹੁ ਏ ਕਿ ਸੁਅਰਗ ਤਿਨਹਾਂ ਮੁੱਝੁਆਂ ਕਨੇ ਕੁਝਿਆਂ
ਤਾਂਈ ਏ (ਕਨੇ ਬਡੁਡੇ ਭੀ) ਜਿਨਹਾਂ ਧੀਸ਼ੁ ਮਸੀਹ ਜੋ ਅਪਣੇ
ਮੁਕਿਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪੇ ਚ ਮਨੇਧਾ ਏ ਕਨੇ ਤਿਸਿਧੋ ਅਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮੇ
ਦੇ ਰੂਪੇ ਚ ਮਨੇਧਾ ਏ। ਸੁਅਰਗ ਚ ਮੇਮਨੇ ਦਿਯਾ ਕਤਾਬਾ ਦਾ ਨਾਂ
ਜਿਨਿਦਿਆ ਦੀ ਇਕਕ ਕਤਾਬ ਏ। ਏਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਨਾਂਏ ਨੈਂ ਮਰਾਈਧੀਂ ਏ। ਕਿਧੁਕ ਤੁਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਏ
ਕਿ ਤਿਤਥੁ ਕੁਸਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇਧੀਂ ਹਨ?

ਸੈਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇਹੜੇ
ਧੀਸ਼ੁ ਪਰ ਬਸੁਆਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਧੁਕ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ
ਤਿਤਥੁ ਏ?



ਸੁਅੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਾਇਬਲਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਦ ਇਕਕ ਅਨੋਖਾ
ਬੁਲਾਵਾ ਏ। “ਕਨੇ ਆਤਮਾ ਕਨੇ ਦੁਲਹਨ ਗਲਾਂਦੇ ਹਨ, ‘ਓਆ!’ ਕਨੇ
ਜੇਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਏ ਸੈਹੁ ਗਲਾਂ ‘ਓਆ!’ ਕਨੇ ਜੇਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਸਾ
ਓਧੈਂ, ਸੈਹੁ ਓਧੈਂ, ਕਨੇ ਜੇਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਂਹ, ਸੈਹੁ ਜਿਨਦਗਿਆ ਦਾ
ਪਾਣੀ ਬੇਝਿੜਕ ਲੇਈ ਸਕਦਾ ਏ।”



ਸੁਅੰਗ, ਪਰਮਾਤਮੇ ਦਾ ਸੁਨਦਰ ਘਰ

ਪਰਮਾਤਮੇ ਦਾ ਵਚਨ, ਬਾਇਬਲਾ ਦੀ ਇਕਕੀ ਕਾਹਣਿਆ

ਚ ਪਾਏਧਾ ਜਾਂਦਾ ਏ

ਧੂਹਨਨਾ 14; 2 ਕੁਰਿਨਿਥਿਧਿਆਂ 5;
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਵਾਕਧ 4, 21, 22

"ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਮਿਨਜੋ ਜੋਤੀ ਦਿੰਦੀ ਏ।"
ਮਜਨ 119:130



आखरी



ਬਾਇਬਲਾ ਦੀ ਏਹੁ ਕਾਹਣੀ ਅਹਾਂ ਜੋ ਅਹਾਂ ਦੇ
ਅਨੋਖੇ ਪਰਮਾਤਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦਸ਼ਦੀ ਏ ਜਿਨ੍ਹਿਂ ਅਹਾਂ ਜੋ
ਬਣਾਯਾ ਏ ਕਨੇ ਜੇਹੜਾ ਸੈਹੁ ਚਾਂਹਦਾ ਏ ਕਿ ਅਹਾਂ ਤਿਸਿਧੀ ਜਾਣੀ ਪਾਨ।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਕਿ ਅਹਾਂ ਬੁਰੇ ਕਮਮ ਕਿਤੇਥੀ ਹਨ ਜਿਸਿਧੀ ਸੈਹੁ ਪਾਪ ਗਲਾਂਦਾ
ਏ। ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਏ, ਅਪਰ ਪਰਮਾਤਮੈਂ ਅਹਾਂ ਨੈਂ ਇਤਣਾ ਪਧਾਰ ਕਿਤਾ ਏ ਕਿ
ਤਿਨ੍ਹਿਂ ਅਪਣੇ ਇਕਕਲੌਤੇ ਪੁਤਰ, ਧੀਸ਼ੁ ਜੋ ਸੂਲਿਧਾ ਪਰ ਮਰਣੇ ਤਾਂਈ ਘਲਲੇਧਾ। ਤਾਂਜੇ
ਅਹਾਂ ਅਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਿਧਾ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਬਚੀ ਸਕਨ। ਤਾਫਲੂ ਧੀਸ਼ੁ ਦੋਬਾਰਾ ਜਿਨਦਾ ਹੋਏਧਾ
ਕਨੇ ਸੁਅਰ੍ਗ ਜੋ ਚਲੀ ਗੇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਂ ਧੀਸ਼ੁ ਪਰ ਬਸੁਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਨੇ ਅਪਣੇ
ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪਖ਼ਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੈਹੁ ਇਆਂ ਕਰਗਾ ਜਾਫਲੂ ਸੈਹੁ ਵਾਪਸ ਆਂਗਾ ਕਨੇ
ਤੁਹਾਂ ਸੌਗੀ ਰੈਵਗਾ, ਕਨੇ ਤੁਹਾਂ ਤਿਸ ਸੌਗੀ ਸਦਾ ਤਾਂਈ ਜਿਨਦੇ ਰੈਵਗੇ।

ਮੇਰੇ ਪਧਾਰੇ ਧੀਸ਼ੁ, ਮਿਨਜੋ ਬਸੁਆਸ ਏ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ, ਕਨੇ ਮੇਰੇ
ਪਾਪਾਂ ਤਾਂਈ ਤੁਹਾਂ ਮਾਣੁ ਬਣੀ ਕਰੀ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਈ ਦਿਤੇ, ਕਨੇ ਹੁਣ ਭੀ ਤੁਹਾਂ
ਜਿਨਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ। ਕਰਿਪਾ ਕਰੀ ਨੈਂ ਤੁਹਾਂ ਮੇਰਿਧਾ ਜਿਨਦਗਿਧਾ ਚ ਓਆ ਕਨੇ
ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਜੋ ਮਾਫ ਕਰਾ, ਤਾਂਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੌਈ ਜਿਨਦਗੀ ਪਾਈ ਸਕੈਂ, ਕਨੇ ਹਰ ਦਿਨ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਂ ਸੌਗੀ ਰੈਹ। ਤੁਹਾਂ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜੋ ਮਨਣੇ ਤਾਂਈ ਮੇਰੀ ਮਦਤ ਕਰਾ
ਕਨੇ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਜਿਨਦਗੀ ਤੁਹਾਂ ਸੌਗੀ ਜੀ ਸਕੈਂ। ਅਮੀਨ।

ਹਰ ਰੋਜ ਬਾਇਬਲ ਪਢਾ ਕਨੇ ਪਰਮਾਤਮੇ ਨੈਂ ਗਲਲਾਂ ਕਰਾ। ਧੂਹੁਨਨਾ 3:16

